



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 19 जनवरी, 2023 ई०
(पौष 29, 1944 शक संवत्)

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत एवं नगरीय निकाय), प्रयागराज

संख्या 24/जि०नि०का०/पं० एवं न०नि०/पंचा० उप निर्वा०/सदस्य क्षेत्र०पं०/2023

दिनांक : 19 जनवरी, 2023 ई०

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-27/रा०नि०आ०अनु०-3/28-22/पं० उप निर्वा०/2023, दिनांक 18 जनवरी, 2023 के क्रम में मैं, संजय कुमार खत्री, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), प्रयागराज एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद प्रयागराज के सदस्य क्षेत्र पंचायत के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन, जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार कराये जायेंगे :-

समय-सारणी

नाम निर्देशन-पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय	नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
24 जनवरी, 2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक)	25 जनवरी, 2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	27 जनवरी, 2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	27 जनवरी, 2023 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	09 फरवरी, 2023 (प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	10 फरवरी, 2023 (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2—क्षेत्र पंचायत सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुये सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2023 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराते हुये व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा और गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन), नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किये जाने के दिनांक अर्थात् 20 जनवरी, 2023 से नामांकन-पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जायेगा।

3—उपर्युक्त उप निर्वाचन में सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन-पत्रों का विक्रय, नामांकन-पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा सम्बन्धित विकास खण्ड पर की जायेगी।

4—उपर्युक्त समय-सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

5—उक्त निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराये जायेंगे।

संजय कुमार खत्री,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
प्रयागराज।